



**NIIT Limited**

Registered Office:  
Plot No 85, Sector 32,  
Institutional Area,  
Gurugram 122 001,  
(Haryana) India  
Tel: +91 (124) 4293000  
Fax: +91 (124) 4293333  
Email: info@niit.com

CIN: L74899HR1981PLC107123

www.niit.com

October 29, 2022

**The Manager  
BSE Limited**

Corporate Relationship Department,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Wing,  
Rotunda Building  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai 400 001

**The Manager  
National Stock Exchange of India Ltd**

Listing Department  
Exchange Plaza  
5<sup>th</sup> Floor, Plot no C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

**Subject: Submission of Copies of newspaper advertisements for publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022**

**Scrip Code: BSE – 500304; NSE – NIITLTD**

Dear Sir,

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisement of October 29, 2022 (Financial Express and Jansatta) for publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,  
For **NIIT Limited**

**Deepak Bansal**  
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

## FROM THE FRONT PAGE

## Flipkart's loss widens 51% to ₹4,362 cr

"Yet this growth has come at a high cost of over \$6.5 billion+ invested to-date while profitability remains elusive (-5-10% Ebitda margins)," they said. Flipkart on Friday said revenues mainly came from operations such as e-commerce, information technology-enabled services, marketplace and related support services, including corporate agent services for insurance. The company ventured into newer businesses like video streaming, distribution and hosting services by developing original content or using the content of other service providers.

## Apple sets all-time high revenue record in India

This is because the \$1 billion exports does not include iPhone 14 exports from India since the Made in India iPhone 14 only began at the end of September 2022. Once iPhone 14 joins the list of exports from India, the average export in dollar terms will increase further since the factory value of an iPhone 14 is much higher than a iPhone 11 or iPhone 12.

## Blue bird in Musk's nest

Before closing the deal, Musk walked into Twitter's headquarters on Wednesday with a big grin and a porcelain sink, subsequently tweeting "let that sink in." He changed his Twitter profile description to "Chief Twit."

Musk said in May he would reverse Twitter's ban on Donald Trump, who's account was removed after the attack on the US Capitol. A representative for Trump did not immediately respond to a Reuters request for comment, but the former US

president previously said he won't return to the platform and has instead launched his own social media app, Truth Social.

Musk tried to calm Twitter employee fears that major layoffs are coming and assured advertisers that his past criticism of Twitter's content moderation rules would not harm its appeal.

"Twitter obviously cannot become a free-for-all hellscape, where anything can be said with no consequences!" Musk said in an open letter to advertisers on Thursday.

As news of the deal spread, some Twitter users were quick to flag their willingness to walk away. "I will be happy to leave in a heartbeat if Musk, well, acts as we all expect him to," said a user with the @mustlovedogsx account.

European regulators also reiterated past warnings that, under Musk's leadership, Twitter must still abide by the region's Digital Services Act, which levies hefty fines on companies if they do not control illegal content.

"In Europe, the bird will fly by our EU rules," EU industry chief Thierry Breton tweeted on Friday morning.

European Parliament lawmaker and civil rights proponent Patrick Breyer suggested people look for alternatives where privacy is a priority.

"Twitter already knows our personalities dangerously well due to its pervasive surveillance of our every click. Now this knowledge will be falling into Musk's hands."

Musk has indicated he sees Twitter as a foundation for creating a "super app" that offers everything from money transfers to shopping and ride-hailing. But Twitter is struggling to engage its most active users who are vital to the business. These "heavy tweeters" account for less than 10% of monthly overall users but generate 90% of all tweets and half of global revenue.

Musk will face a challenge building revenue given that the controversial opinions he appears to want to give more of a free rein to are often unpalatable to advertisers," said Hargreaves Lansdown analyst Susannah Streeter. — REUTERS

## Rules same for everyone: Govt on Musk takeover

Hence, the user can appeal to the said committee in case of his dissatisfaction with the order of the grievance officer and seek an alternative redressal mechanism. However, the user would have the right to seek judicial remedy at any time.

Currently, users having objections to any content or account being blocked can move courts directly for redressal. By creating grievance appellate committees, the government wants to create an adjudicating body between the grievance redressal officers of social media firms and the courts of law.

Last year, Twitter had resisted some of the changes brought about by the government in IT rules, which required them to appoint grievance redressal officers in the country and resolve consumer grievances within a specific time period, as well as have designated nodal officers for coordination with the government over law and order matters.

The government had to write several letters to Twitter to comply with the guidelines and appoint the designated officers or lose its intermediary status. The microblogging site complied much beyond the government's deadline. Currently, the Karnataka government is hearing a matter where Twitter has challenged government's order to take down certain tweets which were seen to disturb law and order.

## Grievance panels for social media firms in 3 months

The grievance appellate committee will then need to deal with such appeals within 30 days from the date of receipt of such appeals.

The government feels that such committees will provide an alternative to an user to file an appeal against the decision of the grievance officer rather than directly going to the court of law. Hence, the user can appeal to the said committee in case of his dissatisfaction with the order of the grievance officer and seek an alternative redressal mechanism. However, the user will have the right to seek judicial remedy at any time.

Currently, users having objections to any content or account being blocked can move courts directly for redressal. By creating grievance appellate committees, the government wants to create an adjudicating body between the

grievance redressal officers of social media firms and the courts of law.

The government has been tightening the rules for the intermediaries (social media) in recent times. Last year, according to some new addition to the IT rules, social media firms had to appoint a set of officers to deal with complaints and objectionable content.

The setting up of GACs is seen by a section of legal observers and Internet activists as a case of over-regulation aimed at muzzling criticism of the government on social media platforms.

Social media firms feel that the government has only last year made the intermediary rules stricter and made them appoint a set of officers to deal with complaints and objectionable content, therefore to now create appellate committees is a case of over-regulation and micro management.

However, minister of state of electronics and IT Rajeev Chandrasekhar had in June countered such apprehensions. "It is being done not to make it difficult for them (social media platforms), it is being done to keep citizens safe," he had said.

Chandrasekhar said that the need for appellate committees was felt as there were several instances of inaction over user complaints, as also cases where users were dissatisfied with the decisions taken by the grievance officers.

DELHI JAL BOARD DELHI SARKAR OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (M)-4 LUCKNOW ROAD, TIMARPUR, DELHI-110054. NIT. No.44 (Item no. 1) (2022-23) DY. S.E./A.C.E.(M)-4						
S. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Date of release of Tender in e-procurement solution	Earnest Money	Tender fee (Non-refundable)	Last date / time of receipt of tender through e-procurement solution
1	Replacement of settled sewer line by Auger Boring Method at Patel Chest Chowk in Timarpur ward in AC-03 under ACE(M)-04. I.D 2022_DJB_231575_1	27,11,414/-	28-10-2022 01 P.M. onward	54,300/-	500/-	Technical bid will be received - 14.11.2022, 3.00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>  
ISSUED BY P.R.O. (WATER) Sd/ (S.K. SINGH)  
Advt. No. J.S.V. 393 (2022-23) DY. S.E. - (M)-4  
STOP CORONA:  
"Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

## SUNDARAM HOME FINANCE LIMITED

CIN : U65922TN1999PLC042759  
Registered Office : 21, Patullus Road, Chennai - 600 002. Tel : 044 - 2852 1181  
Corporate Office : "Sundaram Towers", 46, Whites Road, Chennai - 600 014. Tel : 044 - 2851 5267, Fax: 044 - 2858 2235  
Website : www.sundaramhome.in Email: corporateaffairs@sundaramhome.in

## UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

Particulars	Quarter ended 30.09.2022	Quarter ended 30.09.2021	Year ended 31.03.2022
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	27395.90	24001.68	95698.71
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6577.78	5161.92	21271.74
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	6577.78	5161.92	21271.74
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	5030.39	3969.28	16769.65
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5011.50	3959.10	16694.12
Paid up Equity Share Capital	10125.44	10125.44	10125.44
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	138051.09	127663.58	134897.63
Securities Premium Account	20474.56	20474.56	20474.56
Net worth	168651.09	158263.58	165497.63
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	281094.40	274548.40	255224.73
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
Debt Equity Ratio	5.37	5.10	5.17
Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Not Annualised			
1. Basic: (₹)	4.97	3.92	16.56
2. Diluted: (₹)	4.97	3.92	16.56
Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

- Notes:
- The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the National Stock Exchange website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (www.sundaramhome.in).
  - The Financial Statements for the Quarter ended 30<sup>th</sup> September 2022 have been drawn up in accordance with the provisions of Section 129 read with Schedule III of the Companies Act, 2013 and prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as specified under sec 133 of the Companies Act, 2013.
  - Figures for the previous period are regrouped/reclassified to conform to the current period's classification.
  - The financial results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> September 2022 have been subjected to Limited review by the Statutory Auditors of the Company. The same were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 28<sup>th</sup> October 2022.

By Order of the Board  
Lakshminarayanan Duraiswamy  
Managing Director  
Chennai  
28th October 2022

## NIIT

## NIIT LIMITED

Regd Office: Plot No. 85, Sector- 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India  
Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Website: <http://www.niit.com> Email: [investors@niit.com](mailto:investors@niit.com)  
Corporate Identity Number: L74899HR1981PLC107123

## Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022

(Rs. in Millions, except per share data)

S. No.	Particulars	Consolidated						Standalone					
		Quarter ended			Period ended			Quarter ended			Period ended		
		3 Months ended September 30, 2022	Preceding 3 months ended June 30, 2022	Corresponding 3 months ended September 30, 2021	Year to date figures for the current period ended September 30, 2022	Year to date figures for the previous period ended September 30, 2021	Previous year ended March 31, 2022	3 Months ended September 30, 2022	Preceding 3 months ended June 30, 2022	Corresponding 3 months ended September 30, 2021	Year to date figures for the current period ended September 30, 2022	Year to date figures for the previous period ended September 30, 2021	Previous year ended March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited (Restated) (Refer notes 5 and 6)	Unaudited	Unaudited (Restated) (Refer notes 5 and 6)	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	3,922.18	4,048.21	3,155.93	7,970.39	6,178.46	13,774.81	1,363.19	1,374.08	1,114.52	2,737.27	2,056.40	4,451.90
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	553.90	609.50	737.23	1,163.40	1,429.35	2,884.61	196.18	110.59	581.00	306.77	743.52	1,436.14
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	513.14	604.25	728.82	1,117.39	1,420.94	2,855.31	196.91	105.34	578.24	302.25	740.76	1,412.79
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (before discontinued operations)	416.74	477.52	523.79	894.26	1,070.06	2,337.72	183.73	95.40	513.75	279.13	635.38	1,462.09
5	Profit/(Loss) after tax from discontinued operations	(1.63)	(15.28)	(1.31)	(16.91)	(29.17)	(39.11)	(1.63)	(15.28)	(1.31)	(16.91)	(29.17)	(38.92)
6	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	415.11	462.24	522.48	877.35	1,040.89	2,298.61	182.10	80.12	512.44	262.22	606.21	1,423.17
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	387.81	499.44	475.13	887.25	1,021.45	2,314.80	196.97	72.33	496.47	269.30	584.02	1,371.68
8	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	268.90	268.14	267.08	268.90	267.08	267.74	268.90	268.14	267.08	268.90	267.08	267.74
9	Reserves excluding revaluation reserves						14,885.00						13,353.17
10	Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised, in Rs.)												
	<b>Continuing Operations</b>												
	- Basic	2.96	3.42	3.94	6.38	7.90	17.12	1.38	0.71	3.85	2.09	4.71	10.88
	- Diluted	2.90	3.31	3.85	6.21	7.75	16.72	1.34	0.69	3.76	2.03	4.61	10.63
	<b>Discontinued Operations</b>												
	- Basic	(0.02)	(0.11)	(0.01)	(0.13)	(0.22)	(0.29)	(0.02)	(0.11)	(0.01)	(0.13)	(0.22)	(0.29)
	- Diluted	(0.02)	(0.11)	(0.01)	(0.13)	(0.22)	(0.29)	(0.02)	(0.11)	(0.01)	(0.13)	(0.22)	(0.29)
	<b>Continuing and Discontinued Operations</b>												
	- Basic	2.94	3.31	3.93	6.25	7.68	16.83	1.36	0.60	3.84	1.96	4.49	10.59
	- Diluted	2.88	3.20	3.84	6.08	7.53	16.43	1.32	0.58	3.75	1.90	4.39	10.34

- Notes:
- The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the company's website, [www.niit.com](http://www.niit.com).
  - The above results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 28, 2022.
  - Total Income from Operations represent revenue from operations.
  - The Board of Directors of the Company, in its meeting held on January 28, 2022 approved a Composite Scheme of Arrangement under section 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act 2013 between NIIT Limited (Transferor Company) and NIIT Learning Systems Limited (Formerly known as Mindchampion Learning Systems Limited) (Transferee Company) a wholly owned subsidiary of the Company and their respective shareholders and creditors ("Scheme"). The Scheme inter-alia provides for, (i) Transfer and Vesting of CLG Business Undertaking by the Transferor Company to Transferee Company, (ii) Reduction and cancellation of Share Capital of Transferee Company held by Transferor Company, (iii) Issuance and allotment of shares by the Transferee Company to the shareholders of Transferor Company in consideration of transfer of CLG Business undertaking.
- The Appointed Date for the Scheme is April 1, 2022 or such other date as directed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench ("NCLT"). The Scheme is subject to receipt of regulatory and other approvals inter-alia approval from BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited, SEBI, shareholders, creditors, NCLT and others, as may be applicable. During previous quarter, the Company had filed the application with the NCLT. The NCLT has vide its Order dated August 29, 2022, inter-alia directed that meeting of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company be convened on November 15, 2022 to consider/ approve the Scheme.
- Pending regulatory approvals and other compliances, these financial results do not incorporate impact of the Scheme. Expenses related to the Scheme have been recognised as an exceptional item in the financial results. The above consolidated and standalone results include revenue from operations from CLG Business Undertaking for the quarter ended September 30, 2022 of Rs. 3,004.20 Million and Rs. 897.98 Million respectively.
- Pending regulatory approvals and other compliances, the financial results of the Company does not incorporate impact of the Scheme. Expenses related to the Scheme have been recognised as an exceptional item in the financial results. The above consolidated and standalone results include revenue from operations from CLG Business Undertaking for the quarter ended June 30, 2022 of Rs. 3,125.08 Million and Rs. 928.81 Million respectively.
- During the financial year 2019-20, the Group decided to divest NIIT Learning Systems Limited (NLSL) [Formerly known as Mindchampion Learning Systems Limited], to a strategic or financial investor. Therefore, as per provisions of Ind AS 105 - 'Non-current assets held for sale and Discontinued Operations', the results of NLSL were classified as loss from discontinued operations.
- The Board of Directors in its meeting held on January 28, 2022 decided not to pursue the process of divestment of NLSL and leverage its assets and resources of the company for its offerings in the education sector and house the CLG Business Undertaking under the Scheme as stated in note 4 above. Consequently, as per Ind AS 105, the revenue and expenses of NLSL's operations have been reclassified as continuing operations for the quarter and period ended September 30, 2021.
- The Group acquired 70% stake in RPS Consulting Private Limited ("RPS") and the financial performance of RPS has been consolidated from the date of acquisition i.e. October 1, 2021. Accordingly, the results of the current quarter and period are not comparable with the corresponding quarter and period ended September, 30 2021.

Place: Gurugram  
Date : October 28, 2022

By order of the Board  
For NIIT Limited  
Sd/  
Vijay K Thadani  
Vice-Chairman & Managing Director

दक्षिणा रेलवे जाईएम सूचना
भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से मंडलीय रेलवे प्रबंधक (यात्रिक), दक्षिणी रेलवे, मुद्रु-625016 द्वारा शासकीय ई-माफिलिंग स्थल(जीईएम) पोर्टल में दी गयी निविदा सूचना के अनुसार निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रतिष्ठित ठेकेदारों से द्वि-लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

दक्षिणा रेलवे जाईएम सूचना
भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से मंडलीय रेलवे प्रबंधक (यात्रिक), दक्षिणी रेलवे, मुद्रु-625016 द्वारा शासकीय ई-माफिलिंग स्थल(जीईएम) पोर्टल में दी गयी निविदा सूचना के अनुसार निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रतिष्ठित ठेकेदारों से द्वि-लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उम्मीद हाउसिंग फाइनांस प्रा. लि.
पंजीकृत कार्यालय : 318, झीलएफ मैनेजोमेन्ट, सेक्टर-42, गुरुग्राम (हरियाणा) -122002 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय: बृन्ट 809-815, 8वीं मंजिल, टॉवर-ए, एमएर डिजिटल ग्रांस, गोकुल कोर्स एमरेशन रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा)
सिआईएन: U65922HR2016PFC057984.

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 सीआरपीसी देखिए
मेरे सम्बन्ध परिवार किया गया है कि अभियुक्त अमनदीप सिंह उर्फ अमन पुत्र कवल जीत सिंह पता: जे-3/31ए, प्रथम तल, राजारी गार्डन, दिल्ली ने FIR No. 456/2021 U/S 323/341/506 IPC, दिनांक 08.10.2021, थाना बेगमपुर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अमनदीप सिंह उर्फ अमन मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शाते कर दिया गया है कि उक्त अमनदीप सिंह उर्फ अमन फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिये)
मेरे सम्बन्ध परिवार किया गया है कि अभियुक्त ललित उर्फ लाला, पुत्र रघु नाथ, निवासी WZ-121 नारायणा गाँव, नई दिल्ली ने मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 354/2018 दिनांक 26.08.2018 धारा 356/379/411/34 भा.द.सं. के तहत थाना जनकपुरी, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त ललित उर्फ लाला मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शाते कर दिया गया है कि उक्त ललित उर्फ लाला फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामिल से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है।)

इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : वन इंटरनेशनल सेंटर, टॉवर-1, चतुर्थ तल, सेनापति बाग मार्ग, एफिनस्टोन मार्ग, मुंबई-400013, दूरभाष : (022) 62589220, फैक्स : (022) 62589295
निर्मात कार्यालय : इंडियाबुल्स मार्ग, 422 बी, उद्योग विहार, फेज IV, गुरुग्राम-122016 दूरभाष : (0124) 688112, फैक्स : (0124) 688111

प्रपत्र-जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमवली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

दक्षिणा रेलवे
वैद्युत (टीआरडी) शाखा, तिरोचिरापल्ली मंडल
निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से मंडलीय रेलवे प्रबंधक, ट्रेनिंग वितरण, दक्षिणी रेलवे तिरोचिरापल्ली-620001 द्वारा प्रस्तावित निविदाओं से ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

एल्कोर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 137, सेक्टर-44 I, गुडगांव-122002, फोन: 0124-4527200
पंजीकृत IV विनियम-8 (1) देखें
कक्षा सूचना (अवल संपत्ति के लिये)

आवृत्त सूचना (अवल संपत्ति हेतु)
जबकि, आवृत्त सूचना न इंडस बैंक लि. (यहां इसमें इसके उपरंत 'आवृत्त' के रूप में संदर्भित) का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिनिधिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगार्थ, एक मांग सूचना दिनांकित 12.03.2019 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता मैसर्स सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, श्री सुरेश कुमार मलिक, श्री देवेश कुमार मलिक, श्री महेश कुमार मलिक, श्री विजय मलिक, श्रीमती कुमुद मलिक को सूचना में अंकित, 28.02.2019 के अनुसार, राशि रु. 3,07,07,525/- (मूले तीन करोड़ सात लाख सात हजार पांच सौ पचास मात्र) और एक राशि पर 01.03.2019 से उपगत मावी ब्याज एवं लागतों, शुल्कों एवं व्ययों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 80 दिवसों के अंदर, संयुक्त रूप में अथवा पृथक रूप में, प्रतिमुताबत करने को कहा गया था।

Table with 2 columns: क्र. (Sl. No.) and विवरण (Description). It lists various items for the liquidation process, including assets, liabilities, and specific details for each item.

Table with 2 columns: क्र. (Sl. No.) and विवरण (Description). It lists various items for the liquidation process, including assets, liabilities, and specific details for each item.

जैसा कि, एल्कोर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एल्कोर एआरसी) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिनिधिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 5 के अंतर्गत एंक्टि फिन्नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रृजित इन्वेंचन टैकिन्स कॉर्पोरेशन (उधारकर्ता), संजीव शर्मा (मालिक / गारंटर), रोना शर्मा (गारंटर / गिरवीकर्ता) की वित्तीय परिसंपत्तियों में एंक्टि फिन्नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का सभी अधिकार टाइटल एवं हित का एसाइन्मेंट अनुबंध तिथि 24.05.2022 पंजीकृत के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है।

NIIT LIMITED
Regd Office: Plot No. 85, Sector- 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India
Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Website: http://www.niit.com Email: investors@niit.com
Corporate Identity Number: L74899HR1981PLC107123

Table with 13 columns: S. No., Particulars, and 12 financial metrics (Quarter ended, Period ended, Year ended, etc.). It provides a detailed financial statement for NIIT Limited for the period ending September 30, 2022.

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niit.com.
2 The above results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 28, 2022.
3 Total Income from Operations represent revenue from operations.
4 The Board of Directors of the Company, in its meeting held on January 28, 2022 approved a Composite Scheme of Arrangement under section 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act 2013 between NIIT Limited (Transferor Company) and NIIT Learning Systems Limited (Formerly known as Mindchampion Learning Systems Limited) (Transferee Company) a wholly owned subsidiary of the Company and their respective shareholders and creditors ("Scheme").